



## प्रेस नोट



जनपद-कौशाम्बी

दिनांक 25-06-2021

### भैंस चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफास

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी चायल महोदय व थाना प्रभारी सराय अकिल के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.06.2021 को उ0नि0 श्री गौरव त्रिवेदी मय हमराह फोर्स तलाश वांछित अपराधी व शान्ति व्यवस्था हेतु चेकिंग करते हुए ग्राम सुरसेनी में मौजूद थे की मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की मु0अ0सं0 255/19 से सम्बन्धित अभियुक्त अरवेश तिवारी व उसका एक साथी मनोज तिवारी संदिग्ध हालत में अवैध असलहा लिये हुए जलथर पुलिया पर खड़े हैं। इस सूचना पर उ0नि0 श्री गौरव त्रिवेदी मय हमराह फोर्स के पहुंच कर उन दोनो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जमा तलाशी की गयी तो दोनो अभियुक्तगणों के पैट की फेट से एक एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। कड़ाई से पूछने पर अभियुक्त अरवेश तिवारी जो कि पूर्व में 255/19 का वांछित अभियुक्त है द्वारा बताया गया कि उसके व उसके साथियों ने ग्राम सैदपुर थाना पिपरी से 14 भैंस चोरी किये थे जिसके सम्बन्ध में थाना पिपरी में मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तारी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अरवेश तिवारी पुत्र स्व0 रामाकान्त उर्फ कन्धू नि0 रुसहाई थाना सरायअकिल जनपद कौशाम्बी
2. मनोज तिवारी पुत्र भोन्दल नि0 रुसहाई थाना सरायअकिल जनपद कौशाम्बी।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 257/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी
2. मु0अ0सं0 258/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी
3. मु0अ0सं0 255/19 धारा 41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सरायअकिल में (अरवेश तिवारी वांछित था)
4. मु0सं0 102/21 धारा 379 थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी।

#### विवरण बरामदगी -

दो अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कार0 315 बोर व एक नफर भैंस (सम्बन्धित मु0अ0सं0 102/21 धारा 379 भादवि थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी।)

#### गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ0नि0 श्री गौरव त्रिवेदी मय हमराह का0 रिन्शू सिंह ,का0 शैलेश सिंह, का0 जयन्त सिंह, व का0 मनीष कुमार दुबे चौकी तिल्हापुर थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।



## 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**थाना कोखराज -** श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कोखराज पुलिस प्र०नि० श्री प्रदीप कुमार राय मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु०अ०सं० 308/21 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4डीपी एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त 1. पंकज सिंह पुत्र निर्भय सिंह 2. नीरज सिंह पुत्र निर्भय सिंह नि० शोभना थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।



## जनपद मे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही

जनपद मे लाकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न थानों द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर घूमने/ मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध 50 बैरियर/नाकों एवं थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया/चार पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 188 वाहनों का eचालान किया गया एवं 09 वाहनों का चालान कर 2750 रु० सम्मन शुल्क वसूला गया साथ ही बिना मास्क लगाये घूमने एवं सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 44 व्यक्तियों से 10450 रुपये जुर्माना वसूला गया ।

पुलिस अधीक्षक  
कौशाम्बी